

प्रेस नोट

दिनांक 20.06.2022

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा चोरी के सामान के साथ 04 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 20.06.2022 को उ0नि0 जिलेदार यादव थाना संग्रामपुर मय हमराह द्वारा तलाश वांछित व देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 70/22 धारा 379 भादवि व 71/22 धारा 457,380 भादवि में वांछित 04 अभियुक्त 1.सुनील मौर्या पुत्र शम्भूनाथ, 2.नवाब अली पुत्र अल्ताफ हुसैन निवासीगण ग्राम ठेगहा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी, 3.बजरंग बहादुर यादव उर्फ सागर पुत्र स्व0 विजय बहादुर यादव निवासी बड़ी बबुरी मजरे ठेगहा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी, 4.जीतलाल पुत्र कालिका प्रसाद निवासी भुसहरी थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी को अमेठी-अन्तू मार्ग मालती नदी के पुल के पास से समय करीब 03:40 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से पुराना ल्यूमिनस इन्वर्टर व बैट्री तथा चार प्लास्टिक की कुर्सियां, पुराना इण्डेन गैस सिलेण्डर व पुरानी सोलर प्लेट बरामद हुई । पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि यह सामान चोरी का है जिसमे इन्वर्टर व बैट्री तथा प्लास्टिक की कुर्सियां हम लोगों ने ब्राइट पर्ल पब्लिक स्कूल बदलापुर से, सोलर प्लेट सरकारी स्कूल सहजीपुर से तथा गैस सिलेण्डर सरकारी स्कूल शुकुलपुर बगिया ठेगहा से चोरी किया था । थाना संग्रामपुर द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. सुनील मौर्या पुत्र शम्भूनाथ निवासी ग्राम ठेगहा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
2. नवाब अली पुत्र अल्ताफ हुसैन निवासी ग्राम ठेगहा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
3. बजरंग बहादुर यादव उर्फ सागर पुत्र स्व0 विजय बहादुर यादव निवासी बड़ी बबुरी मजरे ठेगहा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
4. जीतलाल पुत्र कालिका प्रसाद निवासी भुसहरी थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।

बरामदगी-

1. ल्यूमिनस इन्वर्टर
2. ल्यूमिनस बैट्री
3. इण्डेन गैस सिलेण्डर
4. सोलर प्लेट ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 70/22 धारा 379,411 भादवि थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
- मु0अ0सं0 71/22 धारा 457,380,411 भादवि थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 जिलेदार यादव थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
2. उ0नि0 देवी दयाल मौर्य थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
3. हे0का0 शेष बहादुर यादव थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
4. हे0का0 राज बहादुर साहनी थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
5. का0 कौशल यादव थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
6. का0 पुनीत खोखर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।